

प्रेस नोट

जनपद

रामपुर

दिनांक 04.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना अजीमनगर:- चोरी की स्कूटी हीरो माएस्ट्रो के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-
दिनांक 04-11-2021 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के
आधार पर आईटीआई स्कूल खेमपुर के सामने भट्टे के पास से चोरी की 01 स्कूटी
हीरो माएस्ट्रो बिना नम्बर प्लेट के साथ मारूफ पुत्र शाकिर अली निवासी दौकपुरी
टाण्डा थाना अजीमनगर, रामपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मारूफ पुत्र शाकिर अली निवासी दौकपुरी टाण्डा थाना अजीमनगर, रामपुर।

बरामदगी-

चोरी की स्कूटी हीरो माएस्ट्रो बिना नम्बर प्लेट।

कार्यवाही-

मु0अ0सं0-302/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि।

थाना मिलक:- अवैध रूप से शराब भट्टी लगाकर कच्ची शराब की कसीदगी करते
हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, मौके से शराब बनाने के उपकरण व 40 लीटर
नाजायज शराबखाम बरामद-

दिनांक 03-11-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा पीलाखार नदी का
किनारा जंगल ग्राम ऐमी की गोटिया से 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया
गिरफ्तार अभियुक्तगण अवैध रूप से शराब भट्टी लगाकर कच्ची शराब की
कसीदगी कर रहे थे। मौके से एक प्लास्टिक जरीकेन में 40 लीटर शराबखाम, एक
ड्रम, एक तसला, एक मिट्टी बर्तन, ढक्कन, एक पाईप आदि सामान बरामद हुआ।
इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-425/2021 धारा 60(2) आबकारी
अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- बबलू पुत्र बुद्धिलाल निवासी ग्राम एमी की गोटिया थाना मिलक जनपद रामपुर।

02- प्रेमपाल पुत्र मंगलसेन निवासी ग्राम कंचनपुर थाना मिलक जनपद रामपुर।

थाना सिविल लाइन:-एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 04-11-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा शकील पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम जुठिया थाना शहजादनगर जनपद रामपुर को भमरौआ प्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-373/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर:-एक अद्द नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-दिनांक 04-11-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा मनी राम पुत्र सुमेरी प्रसाद निवासी बिजली फार्म बंगाली कालोनी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को अहरो तिराहा कस्बा बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अद्द चाकू नाजायज बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-399/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।